

**\*@shahjahanpurpl\***

**\*प्रेस नोट सराहनीय कार्य दिनांक 09.07.2021\***

**\*थाना गढ़िया रंगीन पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी.\***

**\*शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, अवैध असलहा सहित चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।\***

श्री एस आनन्द, पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुक्रम में एवं श्री संजीव कुमार बाजपेयी, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शाहजहाँपुर के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तिलहर के कुशल निर्देशन व थानाध्यक्ष थाना गढ़िया रंगीन के कुशल नेतृत्व में थाना गढ़िया रंगीन पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली।

दिनांक 09.07.21 की रात्रि थाना गढ़िया रंगीन की पुलिस टीम थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने व रोकथाम जुर्म जरायम, तलाश वांछित अपराधी में भ्रमणशील थी तो मुखबिर की सूचना पर समय करीब 03.50 बजे पर अभियुक्त नाहर सिंह को एक अदद चोरी की मोटरसाइकिल स्पलेण्डर प्लस व एक अदद तमन्चा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व एक अदद मिस कारतूस 12 बोर के साथ पृथ्वीपुर चौराहा थाना गढ़िया रंगीन जिला शाहजहाँपुर से गिरफ्तार किया गया। इस दौरान अभियुक्त सूरज भागने में सफल रहा। इस सम्बन्ध में थाना पर मु0अ0सं0 241/21 धारा 3/25 आर्मस एक्ट बनाम नाहर सिंह उपरोक्त व मु0अ0सं0 242/21 धारा 420/467/468/471/411/414 आईपीसी पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:\***

1-नाहर सिंह पुत्र इन्द्रसेन निवासी ग्राम नगरिया निजामपुर थाना गढ़िया रंगीन जनपद शाहजहाँपुर

**\*फरार अभियुक्त का विवरण:-\***

1. सूरज सिंह पुत्र इन्द्रसेन निवासी ग्राम नगरिया निजामपुर थाना गढ़िया रंगीन जनपद शाहजहाँपुर

**\*बरामदगी:-\***

1. एक अदद चोरी की मोटरसाइकिल स्पलेण्डर प्लस

2. एक अदद तमन्चा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व एक अदद मिस कारतूस 12 बोर

**\*विवरण पूछताछ -\***

पूछताछ से अभियुक्त ने बताया कि मैंने ये मोटरसाइकिल UP 25 BW 2467 को दिनांक 16.02.2021 थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर के ढाईघाट मेला नदी के किनारे से अपने भाई सूरज के साथ मिलकर चोरी की थी। उसे हम लोगों ने मिलकर मिटा दिया था दूसरा न0 UP 27 N 1769 लिख दिया था।

**\*पंजीकृत अभियोग का विवरण:-\***

1. मु0अ0सं0 241/21 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना गढ़िया रंगीन जनपद शाहजहाँपुर

2. मु0अ0सं0 242/21 धारा 420/467/468/471/411/414 आईपीसी थाना गढ़िया रंगीन जनपद शाहजहाँपुर

**\*गिरफ्तार करने वाली टीम:-\***

1. SO सुन्दरलाल वर्मा थाना गढ़िया रंगीन जनपद शाह0

2. उ0नि0 श्री थान सिंह थाना गढ़िया रंगीन शाह0

3.. हे0का0 282 मो0 याकुब थाना गढ़िया रंगीन जनपद शाह0

4. का0 2171 परिक्षित थाना गढ़िया रंगीन जनपद शाह0

5. रि0का0 कुलदीप थाना गढ़िया रंगीन जनपद शाहजहाँपुर